



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 580 राँची, शुक्रवार,

19 जुलाई, 2019 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

18 जुलाई, 2019

संख्या- 01/मु०स्था/आ०बो०-76/2016/न०वि०आ०-2937-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-5455 दिनांक-10.07.2019 के द्वारा श्री जॉर्ज कुमार को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची के आप्त सचिव (वाहत्य कोटा) के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध करायी गई है।

श्री कुमार द्वारा उक्त अधिसूचना के आलोक में दिनांक-11.07.2019 को नगर विकास एवं आवास विभाग में योगदान समर्पित किया गया है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प ज्ञापांक-531 दिनांक-20.02.2004 में निहित प्रावधान के आलोक में श्री जॉर्ज कुमार, झा०प्र०से०

द्वारा समर्पित योगदान को स्वीकृत करते हुए अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के आप्त सचिव (वाहत कोटा) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

3. श्री कुमार को मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1497 दिनांक-04.12.2010 में आदेय वेतनादि एवं अन्य सभी सुविधाएँ देय होंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनीषा जोसेफ तिग्गा,
सरकार के उप सचिव।
